

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

Email Id:- cerwdraxaul@gmail.com Mob. No.-+91 8986915185

पत्रांक :- 820 (अनु०)

रक्सौल, / दिनांक :- 29/05/2025

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

29/05/2025

FORM GFR 19A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to the month of **April-2025**

Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018

PHI -----

Sl. No.	Name of Scheme	Selection No. of Date with Amount (in Rs. In Lacs)	Amount Received (in Rs. In Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR-N-2018	CE-4 (HQ) 3054-01-05/2022 Part -V-29 dt. 30-03-2025	Rs. 10532.89213 Lacs	Certified that out of Total Rs. 10532.89213 Lacs received in favour of Executive Engineer, R.W.D. Works Division, Raxaul. A sum of Rs. 10443.66849 Lacs has been utilised for the purpose of MR-N-2018 Scheme as given in the margin or whichever sanctioned and that the balance Rs. 89.22364 Lacs remaining unutilised at the end of the period under.


- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction Material have been testes.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


29/5/25
Divisional Account Officer
Rural Works Department
Works Department, Raxaul.


29/5/25
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul

Requisition of Allotment under Head MR HEAD-3054 Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Division :- Raxaul

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as Per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	A.A.			Agreement Value		Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount	up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done. (in Lakh)	Remarks
						Length (in Km)	Total (Amount) (in Lakh)	Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	Initial	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MR-N/23-24 Raxaul/02	NH-28 A Road To Masnadih	Arvind Singh	31708512018	पत्रांक-4 (गो) 3054-01-148 / 2023 पत्रांक-II-6352 / वरिष्ठा, दिनांक-14.12.2023	1.725	189.280	157.98443	24.79890	18MBD/2024-25 Date-20-09-2024	19-06-2025	-	3142	25mm	5	91.29351	91.29351	66.69092	Work in Progress

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा,।

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, 18MBD/2024-25

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

29/05/2025

NH-28 A Road To Masnadih

Arvind Singh

IRI CATEGORY

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	ROAD	Latitude	Longitude	Event
12/3/25	14:17:31	13	0.1	285	0	2850	3370	G	26.91542	84.829387	Normal
12/3/25	14:18:0	13	0.1	255	20.2	2550	3029	G	26.91549	84.828481	Normal
12/3/25	14:18:41	13	0.1	265	20.2	2650	3143	G	26.91541	84.82764	Normal
12/3/25	14:19:0	13	0.1	265	20.2	2650	3143	G	26.91534	84.826744	Normal
12/3/25	14:19:17	13	0.1	285	20.2	2850	3370	G	26.91572	84.825854	Normal
12/3/25	14:20:0	13	0.1	275	20.2	2750	3257	G	26.91599	84.825223	Normal
12/3/25	14:20:0	13	0.1	240	20.2	2400	2858	G	26.9164	84.824162	Normal
12/3/25	14:20:27	13	0.1	285	20.2	2850	3370	G	26.91675	84.823358	Normal
12/3/25	14:21:3	13	0.1	275	20.2	2750	3257	G	26.91702	84.822874	Normal
12/3/25	14:21:38	13	0.1	265	20.2	2650	3143	G	26.91753	84.821527	Normal
12/3/25	14:22:13	13	0.1	255	20.2	2550	3029	G	26.91839	84.820317	Normal
12/3/25	14:22:13	13	0.1	275	20.2	2750	3257	G	26.91888	84.81977	Normal
12/3/25	14:23:0	13	0.1	240	20.2	2400	2858	G	26.91908	84.818776	Normal
12/3/25	14:23:24	13	0.1	265	20.2	2650	3143	G	26.91919	84.818096	Normal
12/3/25	14:23:24	13	0.1	275	20.2	2750	3257	G	26.91956	84.816681	Normal
12/3/25	14:24:0	13	0.1	285	20.2	2850	3370	G	26.9199	84.815969	Normal
12/3/25	14:24:0	13	0.1	240	20.2	2400	2858	G	26.92027	84.815505	Normal
12/3/25	14:25:9	13	0.002	240	20.2	2400	2858	G	26.92055	84.814646	Normal

Average IRI 3142.70

12/3/25
A-2

12/3/25
A-2

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 100$$

$$Y = 246$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

Name of Customer : Arvind Singh
 Name of Work/ Road : NH-28 A Road To Masnadih
 Lab Job number : 13
 Date : 12-03-2025
 Section No. : 13

Test Date : 12-03-2025
 Machine No : 422
 Road Name : NH-28 A Road To Masnadih
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side :
 Interval :
 UIV Range : 1858 To 4000 mm/km
 Dist Range : 0 To 1.9
 Start Location :
 End Location :
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$


Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : E:\Bump Report\Arvind Singh\NH-28 A Road To Masnadih\12032025.Xls, Section No. :13, Eqn : $Y = 0 * X^2 +$

Name of Customer :Arvind Singh, Name of Work/ Road :NH-28 A Road To Masnadih, Lab Job number :13



12/13/25
 12/13/25
 12/13/25